

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 जून 2014—ज्येष्ठ 26, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

अधिसूचना क्र. 13 एफ-1-23-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

क्र. (1)	नगरपालिका का नाम (2)	एल्डरमेनों का नाम एवं पता (3)
1	नगरपालिका, बड़वानी	1. श्री कैलाश महाजन पिता श्री नारायणदास महाजन, वार्ड क्र. 6, एम.जी. रोड, बड़वानी 2. श्रीमती मुनिरा साली पति श्री मुस्तुफा साली, वार्ड क्र. 19, बोहरा वार्ड, बड़वानी 3. श्री राजेश पंडित पिता श्री साहेबराव पंडित, वार्ड क्र. 9, कर्मचारी कालोनी, बड़वानी 4. श्री मोहन गोले पिता श्री मिश्रीलाल गोले, वार्ड क्र. 7, बड़वानी
2	सैंधवा, जिला बड़वानी	1. श्री सुखलू नाथ पिता श्री पुंडलिक नाथ, वार्ड नं. 6, सैंधवा 2. श्री दीपक शर्मा पिता श्री बालमुकुन्द शर्मा, वार्ड नं. 17, सैंधवा 3. श्री किशोर सोनी पिता श्री छगनलाल सोनी, वार्ड नं. 16, सैंधवा 4. श्रीमती कलाबाई गाडगे पति श्री कैलाश गाडगे, वार्ड नं. 21, सैंधवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.